



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2315]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 22, 2016/भाद्र 31, 1938

No. 2315]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2016/BHADRA 31, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2016

का.आ. 3029(अ).—यतः, केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत गुजरात राज्य के मुंद्रा में विशेष आर्थिक जोन मै. मुंद्रा पोर्ट एण्ड स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेड के नाम में अधिसूचित/अनधिसूचित किए थे, अर्थात्:-

- (1) सं. का.आ. 1365 (अ) दिनांक 27 मई, 2009;
- (2) सं. का.आ. 583 (अ) दिनांक 26 मार्च, 2012;
- (3) सं. का.आ. 1443 (अ) दिनांक 31 मई, 2013;
- (4) सं. का.आ. 3379 (अ) दिनांक 11 दिसंबर, 2015;

और यतः, दिनांक 27 मार्च, 2012 के अनुमोदन पत्र सं. एफ.1/15/2011-एसईजेड के अनुसार उल्लिखित एसईजेड के नाम को मै. मुंद्रा पोर्ट एण्ड स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेड से बदल कर मै. अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेड कर दिया था;

और यतः केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित तथा इस अधिसूचना के साथ संलग्न का.आ. सं. 1365 (अ) दिनांक 27 मई, 2009; का.आ. सं. 583 (अ) दिनांक 26 मार्च, 2012; का.आ. सं. 1443 (अ) दिनांक 31 मई, 2013; का.आ. सं. 3379 (अ) दिनांक 11 दिसंबर, 2015; द्वारा अधिसूचित समस्त विशेष आर्थिक जोनों को प्रशासनिक सुविधा के लिए और विकासकर्ताओं के अधिकारों, दायित्वों और वित्तीय लाभों को प्रभावित किए बिना समेकित करने का निर्णय लिया है;

अतः अब विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रथम पैराग्राफ में उल्लिखित अधिसूचना सं. का.आ. 1365 (अ) दिनांक 27 मई, 2009; का.आ.सं. 583 (अ) दिनांक 26 मार्च, 2012; सं. का.आ. 1443 (अ) दिनांक 31 मई, 2013; का.आ.सं. 3379 (अ) दिनांक 11 दिसंबर, 2015 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए विलोपित कार्यों को छोड़ कर, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाएं और अन्य संबंधित अपेक्षाएं पूरी हो गई हैं, एतद्वारा प्रथम पैराग्राफ में उल्लिखित अधिसूचनाओं में वर्णित विशेष आर्थिक जोनों के समेकित करती है और निम्नलिखित क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में पुनः अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या तथा क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात:-

तालिका

अ (बहु उत्पाद)				
क्र. सं.	गाँव/क्षेत्र का नाम	तालुका	सर्वेक्षण सं./विवरण	क्षेत्र हैक्ट. में
1	धुब्र	मुद्रां	उत्तर: नवीनल क्रीक दक्षिण : जी एम बी-जी ए पी एल भूमि पूर्व: जी एम बी-जी ए पी एल भूमि पश्चिम: 175 एकड़ भूमि	121-40-43
2.	धुब्र	मुद्रां	उत्तर : जी एम बी – जी ए पी एल भूमि एवं जी ए पी एल रोड दक्षिण :जी एम बी – जी ए पी एल भूमि पूर्व: 300 एकड़ भूमि पश्चिम: 325 एकड़ भूमि	70-81-92
3	धुब्र	मुद्रां	उत्तर :जी एम बी – जी ए पी एल भूमि एवं जी ए पी एल रोड. दक्षिण :जी एम बी – जी ए पी एल भूमि पूर्व: जी ए पी एल रोड एवं 175 एकड़ भूमि पश्चिम: जी एम बी - जी ए पी एल भूमि	131-52-13
4	नवीनल द्वीप भूमि	मुद्रां	उत्तर : नवीनल क्रीक एवं जी एम बी-जी ए पी एल भूमि दक्षिण : कच्छ की खाड़ी. पूर्व : जी ए पी एल रोड. एवं 325 एकड़ एसीएल भूमि पश्चिम : क्रीक एवं वन क्षेत्र	406-29-97
			उत्तर : वन भूमि	

5	नवीनल द्वीप भूमि	मुद्रां	दक्षिण : नवीनल क्रीक पूर्व : जी ए पी एल रोड. पश्चिम: वन भूमि	80-93-62
6	मुद्रां एवं पुरानी भारत नमक एवं रसायन लि. की भूमि	मुद्रां	उत्तर: ध्रुव ग्राम की क्र.स. 169 का ट्रेवर्स लैंड और मुद्रां ग्राम की क्र.स. 141 का ट्रेवर्स लैंड दक्षिण: बोचा क्रीक एवं पुराना मुद्रां पतन पूर्व: पुराना मुद्रां पोर्ट रोड. पश्चिम: नवीनल क्रीक एवं जी ए पी एल रोड	320-75-02
7	धुन्न	मुद्रां	169	150-54-13
8	मुद्रां	मुद्रां	141 पार्ट, 141 पार्ट	71-44-64
9	बरोई	मुद्रां	207, 207 पार्ट	39-87-12
10	गोवरसामा	मुद्रां	27, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9 पार्ट, 34/9 पार्ट, 34/10, 34/11, 52/8, 52 पार्ट, 28/1, 52 पार्ट, 52 पार्ट (पुराना)	43-75-61
11	शेकादिया	मुद्रां	81/1, 81/2, 120/1	04-04-68
12	लूनी	मुद्रां	162, 163 पार्ट, 165/1, 165/2, 166, 167 पार्ट, 168, 169 पार्ट, 177/2, 235 पार्ट, 237/1, 237/2, 258, 238, 239/1 पार्ट, 243 पार्ट, 244, 245/2, 245/1, 246 पार्ट, 247 पार्ट, 248 पार्ट, 254/2 पार्ट, 256/1 पार्ट, 257, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267/1, 267/2, 274/2, 277 पार्ट, 278/1, 278/2, 279 पार्ट, 280, 281, 282, 342 पार्ट, 342 पार्ट, 236, 468 पार्ट, 468 पार्ट, 468 पार्ट	183-68-47

13	वडाला	मुद्रां	<p>120 पार्ट, 177/1, 177/2, 178, 179 पार्ट, 180/1, 180/2, 180/3, 181, 184, 185 पार्ट, 185 पार्ट, 186 पार्ट, 187, 188/1, 189/1, 189/2, 190/1, 190/2, 191, 192, 193, 195 पार्ट, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 198, 199 पार्ट, 200, 243/2, 244/2, 245/1पार्ट, 245/1 पार्ट, 245/2, 251/2 पार्ट, 254, 255/1, 255/2 पार्ट, 256 पार्ट, 257, 258/1, 259,260/1, 260/2, 261/1, 261/2, 262, 263/1 पार्ट, 264/1, 264/2, 264/3, 404, 405, 406/1 पार्ट, 406/2 पार्ट, 406/3, 406/4, 423/2, 424, 425/1, 425/2, 425/3 पार्ट, 431 पार्ट, 432/1 पार्ट, 432/2, 432/3, 433, 434, 435 पार्ट, 446 पार्ट, 447, 448, 449/1, 449/2, 450 पार्ट, 465 पार्ट, 467 पार्ट, 468 पार्ट, 469 पार्ट, 470 पार्ट, 478 पार्ट, 526/1, 527 पार्ट, 528/1, 528/2, 529 पार्ट, 530, 533, 534 पार्ट, 376, 466 पार्ट, 472, 202, 466 पार्ट</p>	138-02-66
14	पावादियारा	मुद्रां	<p>10/1 पार्ट, 11, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1 पार्ट, 15, 16 पार्ट, 30, 32/1 पार्ट, 39 पार्ट, 41, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 44 पार्ट, 17 पार्ट, 29, 31/1, 31/2</p>	26-22-33
15	भरुडिया	मुद्रां	<p>168 पार्ट, 173/1, 173/2, 174 पार्ट, 176, 177 पार्ट, 210, 211 पार्ट, 212, 214, 217 पार्ट, 217 पार्ट, 178 पार्ट</p>	27-01-25

16	भद्रेश्वरा	मुद्रां	54 पार्ट, 55 पार्ट, 57, 60, 153/1, 154/2, 63/1 पार्ट, 63/2 पार्ट, 82/1, 82/3, 84/1, 85/1 पार्ट, 85/2, 86/1, 89 पार्ट, 90, 96 पार्ट, 97 पार्ट, 98 पार्ट, 99, 102/1 पार्ट, 125/1, 151/2, 130/1, 131/1, 132/2, 132/3, 133, 134/2, 137/2 पार्ट, 137/3, 138, 139, 140, 152/1, 152/2, 153/2, 153/3, 153/4, 157/1, 157/3, 86/2, 88, 95, 100, 134/1(137/3), 137/1, 84/2, 130/3, 143/4, 144, 145, असर्वेक्षित भूमि of 25 एकड़.	119-23-93
17	बीतावलाडिया (अतमनो वास)	अंजार	255 पार्ट, 260/1, 263, 264 पार्ट, 284/1 पार्ट, 284/2, 285 पार्ट, 289 पार्ट, 290, 291 पार्ट, 292/1, 292/2, 293/1 पार्ट, 294 पार्ट, 297/1 पार्ट, 295 पार्ट, 298/1, 298/2, 302 पार्ट, 304 पार्ट, 299 पार्ट, 300 पार्ट, 301, 306/1 पार्ट, 308 पार्ट, 309 पार्ट, 309 पार्ट, 312 पार्ट, 292/3, 345, 347, 334, 342, 346	61-24-85
18	बीतावलाडिया (उगमनोवास)	अंजार	5/1 पार्ट, 6 पार्ट, 8 पार्ट, 9 पार्ट, 9 पार्ट, 10 पार्ट, 11/1 पार्ट, 11/2 पार्ट, 11/3, 18/1 पार्ट, 18/2 पार्ट, 18/3, 19, 21, 22/2 पार्ट, 22/3, 22/4, 22/5, 23 पार्ट, 55 पार्ट, 184/1 पार्ट, 184/2 पार्ट, 186 पार्ट, 187/1 पार्ट, 220, 221 पार्ट, 222, 223 पार्ट, 224 पार्ट, 225 पार्ट, 225 पार्ट, 338, 401पार्ट, 401 पार्ट, 7, 43, 220, 405 पार्ट, 20,	61-60-25

			असर्वेक्षित भूमि of 10 एकड	
19	कुम्भरिया	अंजार	101 पार्ट, 102, 103, 104, 105 पार्ट, 112 पार्ट, 113, 114 पार्ट, 115, 116, 117, 118, 119, 120 पार्ट, 266 पार्ट, 123, 147, 148 पार्ट, 149 पार्ट, 157, 158, 159/1 पार्ट, 159/2 पार्ट, 160 पार्ट, 161 पार्ट, 162 पार्ट, 163 पार्ट, 164 पार्ट, 169 पार्ट, 171, 172, 174 पार्ट, 251 पार्ट, 252 पार्ट, 253 पार्ट, 254, 255, 256, 257, 258, 259 पार्ट, 265 पार्ट, 267 पार्ट, 270 पार्ट, 268, 269, 271, 274 पार्ट, 275 पार्ट, 276 पार्ट, 152, 111, 136	67-70-31
20	देवलिया	अंजार	4, 8/1, 9, 10, 11/1, 11/2, 45 पार्ट, 46 पार्ट, 47, 48, 49/1, 49/2, 335 पार्ट, 335 पार्ट, 338/1, 338/2, 338/3 पार्ट, 340 पार्ट, 341 पार्ट, 342/1, 342/2, 348/2 पार्ट, 384/2, 342/3, 343, 344, 346, 347, 348/1 पार्ट, 349, 350, 351, 352 पार्ट, 353 पार्ट, 354 पार्ट, 355, 356, 357, 358/1, 358/2, 358/3, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 367 पार्ट, 369/2 पार्ट, 369/3, 370 पार्ट, 384/4 पार्ट, 387 पार्ट, 395/1 पार्ट, 397 पार्ट, 398, 399, 400, 403, 404 पार्ट, 405 पार्ट, 489 पार्ट, 401, 489 पार्ट	169-42-98
21	शिनोई	अंजार	514	3-37-91
			717/1 पार्ट, 717/2 पार्ट, 718 पार्ट, 723, 724, 725 पार्ट, 728,	

22	अंजार-एसआईएम	अंजार	734 पार्ट, 735 पार्ट, 736, 737 पार्ट, 738 पार्ट, 761, 762 पार्ट, 867, 868/1 पार्ट, 868/2, 869 पार्ट, 870 पार्ट, 872 पार्ट, 873 पार्ट, 874/1 पार्ट, 875/1, 875/2, 875/3, 875/4 पार्ट, 984 पार्ट, 722/4, 727, 866, 984 पार्ट, 1026, 1058, 1005 पार्ट, 1024 पार्ट, 1025, 1026, 1027, 1010, 1005 पार्ट, 1024 पार्ट	89-14-11
23	मेघपार-कुंभडी	अंजार	43 पार्ट, 51/2, 52 पार्ट, 57/1 पार्ट, 63 पार्ट, 68 पार्ट, 69/1 पार्ट, 69/2 पार्ट, 70/1 पार्ट, 70/3 पार्ट, 122/2, 124/1 पार्ट, 124/2 पार्ट, 124/3 पार्ट, 124/4, 140/1 पार्ट, 140/2, 141 पार्ट, 142/4, 163 पार्ट	18-67-60
24	मुद्रां पत्तन (जी ए पी एल) पत्तन सीमा	-	निम्नलिखित वर्तमान अधिसूचनाओं के अनुसार: (i) सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय, गुजरात, अहमदाबाद द्वारा जारी दिनांक 23.09.1999 की सं.17/99-सी.सी (ii) पत्तन एवं यातायात विभाग, गुजरात सरकार द्वारा जी दिनांक 11.12.2008 की सं. पी/टी/2008/69/डब्ल्यू के एस/432007/जी/ 488/जी एच/1 (iii) सीमाशुल्क आयुक्त (नि.) का कार्यालय, जामनगर द्वारा जारी दिनांक 7 मार्च, 2003 की सं. 03/2003 (iv) सीमाशुल्क आयुक्त (नि.) का कार्यालय, जामनगर द्वारा जारी दिनांक 20 मई, 2003 की सं. 03/2003	
25	मुद्रां	मुद्रां	141 पाइकी	251-43-08
26	मुद्रां	मुद्रां	141 पाइकी	74-61-45
27	धुव्र	मुद्रां	169 पार्ट	105-01-93
28	धुव्र	मुद्रां	169 पार्ट	16-18-80

29	धुब्र	मुद्रां	169/पी1/पी1/पी3	14-16-41
30	धुब्र	मुद्रां	असर्वेक्षित भूमि	28-93-61
31	जारपारा	मुद्रां	689/7	41-92-69
32	जारपारा	मुद्रां	689/29	48-42-72
33	जारपारा	मुद्रां	689/30	24-31-16
34	जारपारा	मुद्रां	689/36	63-70-79
35	जारपारा	मुद्रां	689/47	21-04-38
36	जारपारा	मुद्रां	689/48	74-46-25
37	जारपारा	मुद्रां	689/49	70-51-68
38	जारपारा	मुद्रां	689/50	41-65-27
39	जारपारा	मुद्रां	689/52	16-19-08
40	जारपारा	मुद्रां	असर्वेक्षित भूमि	269-03-89
41	जारपारा	मुद्रां	689/पी92/पी2/पी2	87-20-05
42	नवीनल	मुद्रां	55/1	1-22-42
43	नवीनल	मुद्रां	56/2	0-23-27
44	नवीनल	मुद्रां	64/1	0-98-14
45	नवीनल	मुद्रां	102/1	2-30-67
46	नवीनल	मुद्रां	102/2	1-11-29
47	नवीनल	मुद्रां	110/3	0-84-98
48	नवीनल	मुद्रां	115/3	1-02-18
49	नवीनल	मुद्रां	130	3-24-76
50	नवीनल	मुद्रां	223/पार्ट	134-29-94
51	नवीनल	मुद्रां	असर्वेक्षित भूमि	58-22-79
52	नवीनल	मुद्रां	224 & 225 पार्ट	93-48-29
53	सिरचा	मुद्रां	120	2-12-46
54	सिरचा	मुद्रां	121/1	1-16-35
55	सिरचा	मुद्रां	121/3	1-04-21
56	सिरचा	मुद्रां	121/4	1-95-26
57	सिरचा	मुद्रां	125/1	1-74-02
58	सिरचा	मुद्रां	131	2-54-95

59	सिरचा	मुद्रां	295 पार्ट	103-67-08
60	सिरचा	मुद्रां	124	1-86-16
61	सिरचा	मुद्रां	125/2	1-60-86
62	सिरचा	मुद्रां	126	2-22-58
63	सिरचा	मुद्रां	129	5-62-52
64	सिरचा	मुद्रां	135	2-60-01
65	सिरचा	मुद्रां	137	1-63-90
66	सिरचा	मुद्रां	138/1	3-65-23
67	सिरचा	मुद्रां	140	4-24-92
68	सिरचा	मुद्रां	141	2-24-60
69	सिरचा	मुद्रां	142	2-68-11
70	सिरचा	मुद्रां	143	4-14-81
71	सिरचा	मुद्रां	144/1	3-83-44
72	सिरचा	मुद्रां	144/2	1-39-62
73	सिरचा	मुद्रां	147	2-92-39
74	सिरचा	मुद्रां	असर्वेक्षित भूमि	64-72-85
75	सिरचा	मुद्रां	295/पी6/पी3	73-35-18
76	टुंडा	मुद्रां	180/पी	77-52-50
77	टुंडा	मुद्रां	असर्वेक्षित भूमि	506-94-82
78	मुद्रां	मुद्रां	141 पाइकी	607-05-00
79	मुद्रां	मुद्रां	141 पाइकी	84-17-55
80	मुद्रां	मुद्रां	जी एम बी/जी ए पी एल भूमि (ओल्ड भारत साल्ट लैंड)	382-95-00
81	टुंडा	मुद्रां	180 पाइकी	231-60-98
82	सिरचा	मुद्रां	295/1 पाइकी	62-27-12
83	बरोई	मुद्रां	238 पी	20-23-50
84	बरोई	मुद्रां	207 पी	21-70-16
85	गोवरसमा	मुद्रां	52 पी	189-25-95
86	गोवरसमा	मुद्रां	53 पी	27-01-51
	कुल योग अ		6456.3349 हेक्टेयर	
ब (एफ टी डब्लू जेड)				
87	धुन्न	-	169/36	168.41

	कुल योग ब	168.41 हेक्टेयर
--	------------------	------------------------

स (नया बहुउत्पाद)			
88	मुद्रां वन	असर्वेक्षित भूमि	1228.00.00
89	मुद्रां वन	असर्वेक्षित भूमि	227.00.00
90	मुद्रां वन	असर्वेक्षित भूमि	385.00.00
	सिरचा	असर्वेक्षित भूमि	1.59.37
	नवीनल	असर्वेक्षित भूमि	6.99.95
91	जारपारा	असर्वेक्षित भूमि	2.86.92
	जारपारा	689/पी92/पी2	5.07.11
		कुल योग स	1856.53.35
	कुल योग (अ+ब+स)		8481.2784 हेक्टेयर

[फा. सं. एफ. 1/12/2016-एसईजेड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st September, 2016

S.O. 3029(E).—WHEREAS, the Central Government had notified/de-notified the Special Economic Zone named M/s. Mundra Port and Special Economic Zone Limited at Mundra in the State of Gujarat under the following notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Ministry of Commerce), namely:-

- (1) S.O. number 1365 (E) dated 27th May, 2009;
- (2) S.O. number 583 (E) dated 26th March, 2012;
- (3) S.O. number 1443 (E) dated 31st May, 2013;
- (4) S.O. number 3379 (E) dated 11th December, 2015;

AND, WHEREAS, the name of the SEZ was changed from M/s. Mundra Port and Special Economic Zone Limited (MPSEZL) to M/s. Adani Ports and Special Economic Zone Limited vide approval letter No. F.1/15/2011-SEZ dated 27th March, 2012;

AND, WHEREAS, the Central Government has decided to consolidate all the Special Economic Zones notified vide S.O. number 1365 (E) dated 27th May, 2009; S.O. number 583 (E) dated 26th March, 2012; S.O. number 1443 (E) dated 31st May, 2013; S.O. number 3379 (E) dated 11th December, 2015 referred in preceding paragraph for administrative convenience and without affecting rights obligations and fiscal benefits of the Developer(s);

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) (hereinafter referred to as the said Act, read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, and in supersession of the notification number S.O. number 1365 (E) dated 27th May, 2009; S.O. number 583 (E) dated 26th March, 2012; S.O. number 1443 (E) dated 31st May, 2013; S.O. number 3379 (E) dated 11th December, 2015, referred to the first paragraph, except as respects things done or omitted to be done for such supersession, the Central Government on being satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled, hereby consolidates the Special Economic Zones mentioned in the notifications referred to the first paragraph, and re-notifies following areas comprising following survey numbers given in the table below as a Special Economic Zone, namely:

TABLE

A (Multi Product)				
Sl. No.	Name of Village/Area	Taluka	Survey No./Details	Area in Hectares
1.	Dhrub	Mundra	North: Navinal Creek South : GMB-GAPL land East: GMB-GAPL land West: 175 acre Land	121-40-43
2.	Dhrub	Mundra	North : GMB – GAPL Land and GAPL Road South :GMB – GAPL Land	70-81-92
			East: 300 Acre Land West: 325 Acre Land	
3.	Dhrub	Mundra	North :GMB – GAPL Land and GAPL Road South :GMB – GAPL Land East: GAPL Road and 175 Acre Land West: GMB - GAPL Land	131-52-13
4.	Navinal Island Land	Mundra	North : Navinal Creek and GMB-GAPL land South : Gulf of Kutch East : GAPL road and 325 acres ACL land West : Creek and Forest Area	406-29-97
5.	Navinal Island Land	Mundra	North : Forest Land South : Navinal Creek East : GAPL Road West : Forest Land	80-93-62
6.	Mundra and Old Bharat Salt and Chemical Ltd. Land	Mundra	North: Traverse Land S.No. 169 of Village – Dhrub and Traverse land S. No. 141 of Village – Mundra South: Bocha Creek & Old Mundra Port East: Old Mundra Port Road West: Navinal Creek and GAPL Road	320-75-02
7.	Dhrub	Mundra	169	150-54-13
8.	Mundra	Mundra	141 part, 141 Part	71-44-64
9.	Baroi	Mundra	207, 207 Part	39-87-12
10.	Govarsama	Mundra	27, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5,	43-75-61

			28/6, 28/7, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9 Part, 34/9 Part, 34/10, 34/11, 52/8, 52 Part, 28/1, 52 Part, 52 Part (old)	
11.	Shekhadiya	Mundra	81/1, 81/2, 120/1	04-04-68
12.	Luni	Mundra	162, 163 Part, 165/1, 165/2, 166, 167 Part, 168, 169 Part, 177/2, 235 Part, 237/1, 237/2, 258, 238, 239/1 Part, 243 Part, 244, 245/2, 245/1, 246 Part, 247 Part, 248 Part, 254/2 Part, 256/1 Part, 257, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267/1, 267/2, 274/2, 277 Part, 278/1, 278/2, 279 Part, 280, 281, 282, 342 Part, 342 Part, 236, 468 Part, 468 Part, 468 Part	183-68-47
13.	Vadala	Mundra	120 Part, 177/1, 177/2, 178, 179 Part, 180/1, 180/2, 180/3, 181, 184, 185 Part, 185 Part, 186 Part, 187, 188/1, 189/1, 189/2, 190/1, 190/2, 191, 192, 193, 195 Part, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 198, 199 Part, 200, 243/2, 244/2, 245/1 Part, 245/1 Part, 245/2, 251/2 Part, 254, 255/1, 255/2 Part, 256 Part, 257, 258/1, 259, 260/1, 260/2, 261/1, 261/2, 262, 263/1 Part, 264/1, 264/2, 264/3, 404, 405, 406/1 Part, 406/2 Part, 406/3, 406/4,	138-02-66
			423/2, 424, 425/1, 425/2, 425/3 Part, 431 Part, 432/1 Part, 432/2, 432/3, 433, 434, 435 Part, 446 Part, 447, 448, 449/1, 449/2, 450 Part, 465 Part, 467 Part, 468 Part, 469 Part, 470 Part, 478 Part, 526/1, 527 Part, 528/1, 528/2, 529 Part, 530, 533, 534 Part, 376, 466 Part, 472, 202, 466 Part	
14.	Pavadiyara	Mundra	10/1 Part, 11, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1 Part, 15, 16 Part, 30, 32/1 Part, 39 Part, 41, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 44 Part, 17 Part, 29, 31/1, 31/2	26-22-33
15.	Bharudia	Mundra	168 Part, 173/1, 173/2, 174 Part, 176, 177 Part, 210, 211	27-01-25

			Part, 212, 214, 217 Part, 217 Part, 178 Part	
16.	Bhadreshwar	Mundra	54 Part, 55 Part, 57, 60, 153/1, 154/2, 63/1 Part, 63/2 Part, 82/1, 82/3, 84/1, 85/1 Part, 85/2, 86/1, 89 Part, 90, 96 Part, 97 Part, 98 Part, 99, 102/1 Part, 125/1, 151/2, 130/1, 131/1, 132/2, 132/3, 133, 134/2, 137/2 Part, 137/3, 138, 139, 140, 152/1, 152/2, 153/2, 153/3, 153/4, 157/1, 157/3, 86/2, 88, 95, 100, 134/1(137/3), 137/1, 84/2, 130/3, 143/4, 144, 145, Unsurveyed Land of 25 acres	119-23-93
17.	Bitawaladia (Athamnowas)	Anjar	255 Part, 260/1, 263, 264 Part, 284/1 Part, 284/2, 285 Part, 289	61-24-85
			Part, 290, 291 Part, 292/1, 292/2, 293/1 Part, 294 Part, 297/1 Part, 295 Part, 298/1, 298/2, 302 Part, 304 Part, 299 Part, 300 Part, 301, 306/1 Part, 308 Part, 309 Part, 309 Part, 312 Part, 292/3, 345, 347, 334, 342, 346	
18.	Bitawaladia (Ugamanowa)	Anjar	5/1 Part, 6 Part, 8 Part, 9 Part, 9 Part, 10 Part, 11/1 Part, 11/2 Part, 11/3, 18/1 Part, 18/2 Part, 18/3, 19, 21, 22/2 Part, 22/3, 22/4, 22/5, 23 Part, 55 Part, 184/1 Part, 184/2 Part, 186 Part, 187/1 Part, 220, 221 Part, 222, 223 Part, 224 Part, 225 Part, 225 Part, 338, 401 Part, 401 Part, 7, 43, 220, 405 Part, 20, Unsurveyed land of 10 acres	61-60-25
19.	Kumbharia	Anjar	101 Part, 102, 103, 104, 105 Part, 112 Part, 113, 114 Part, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Part, 266 Part, 123, 147, 148 Part, 149 Part, 157, 158, 159/1 Part, 159/2 Part, 160 Part, 161 Part, 162 Part, 163 Part, 164 Part, 169 Part, 171, 172, 174 Part, 251 Part, 252 Part, 253 Part, 254, 255, 256, 257, 258, 259 Part, 265 Part, 267 Part, 270 Part, 268, 269, 271, 274 Part, 275 Part, 276 Part, 152, 111, 136	67-70-31
20.	Devalia	Anjar	4, 8/1, 9, 10, 11/1, 11/2, 45 Part, 46 Part, 47, 48, 49/1, 49/2, 335 Part, 335 Part, 338/1,	169-42-98

			338/2, 338/3 Part, 340 Part, 341 Part, 342/1, 342/2, 348/2 Part, 384/2, 342/3, 343, 344, 346, 347, 348/1 Part, 349, 350, 351, 352 Part, 353 Part, 354 Part, 355, 356, 357, 358/1, 358/2, 358/3, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 367 Part, 369/2 Part, 369/3, 370 Part, 384/4 Part, 387 Part, 395/1 Part, 397 Part, 398, 399, 400, 403, 404 Part, 405 Part, 489 Part, 401, 489 Part	
21.	Shynoi	Anjar	514	3-37-91
22.	Anjar SIM	Anjar	717/1 Part, 717/2 Part, 718 Part, 723, 724, 725 Part, 728, 734 Part, 735 Part, 736, 737 Part, 738 Part, 761, 762 Part, 867, 868/1 Part, 868/2, 869 Part, 870 Part, 872 Part, 873 Part, 874/1 Part, 875/1, 875/2, 875/3, 875/4 Part, 984 Part, 722/4, 727, 866, 984 Part, 1026, 1058, 1005 Part, 1024 Part, 1025, 1026, 1027, 1010, 1005 Part, 1024 Part	89-14-11
23.	Meghpar – Kumbhardi	Anjar	43 Part, 51/2, 52 Part, 57/1 Part, 63 Part, 68 Part, 69/1 Part, 69/2 Part, 70/1 Part, 70/3 Part, 122/2, 124/1 Part, 124/2 Part, 124/3 Part, 124/4, 140/1 Part, 140/2, 141 Part, 142/4, 163 Part	18-67-60
24.	Mundra Port (GAPL) Port Limits	-	As per following existing notifications: (i) No. 17/99-CC dated 23- 09-1999 issued by the Office of the Commissioner of Customs, Gujarat, Ahmedabad (v) No. PT/2008/69/WKS/432007/G/488/ GH/1 dated 11- 12-2008 issued by Ports and Transport Department, Government of Gujarat. (vi) No. 03/2003 dated 7th March 2003 issued by the Office of the Commissioner of Customs (Prev.), Jamnagar. (vii) No. 09/2003 dated 20th May 2003 issued by the Office of the Commissioner of Customs (Prev.), Jamnagar.	--
25.	Mundra	Mundra	141 Paiki	251-43-08
26.	Mundra	Mundra	141 Paiki	74-61-45
27.	Dhrub	Mundra	169 Part	105-01-93

28.	Dhrub	Mundra	169 Part	16-18-80
29.	Dhrub	Mundra	169/P51/P1/P3	14-16-41
30.	Dhrub	Mundra	Unsurveyed Land	28-93-61
31.	Zarpara	Mundra	689/7	41-92-69
32.	Zarpara	Mundra	689/29	48-42-72
33.	Zarpara	Mundra	689/30	24-31-16
34.	Zarpara	Mundra	689/36	63-70-79
35.	Zarpara	Mundra	689/47	21-04-38
36.	Zarpara	Mundra	689/48	74-46-25
37.	Zarpara	Mundra	689/49	70-51-68
38.	Zarpara	Mundra	689/50	41-65-27
39.	Zarpara	Mundra	689/52	16-19-08
40.	Zarpara	Mundra	Unsurveyed Land	269-03-89
41.	Zarpara	Mundra	689/P92/P2/P2	87-20-05
42.	Navinal	Mundra	55/1	1-22-42
43.	Navinal	Mundra	56/2	0-23-27
44.	Navinal	Mundra	64/1	0-98-14
45.	Navinal	Mundra	102/1	2-30-67
46.	Navinal	Mundra	102/2	1-11-29
47.	Navinal	Mundra	110/3	0-84-98
48.	Navinal	Mundra	115/3	1-02-18
49.	Navinal	Mundra	130	3-24-76
50.	Navinal	Mundra	223/part	134-29-94
51.	Navinal	Mundra	Unsurveyed Land	58-22-79
52.	Navinal	Mundra	224 & 225 Part	93-48-29
53.	Siracha	Mundra	120	2-12-46
54.	Siracha	Mundra	121/1	1-16-35
55.	Siracha	Mundra	121/3	1-04-21
56.	Siracha	Mundra	121/4	1-95-26
57.	Siracha	Mundra	125/1	1-74-02
58.	Siracha	Mundra	131	2-54-95
59.	Siracha	Mundra	295 Part	103-67-08
60.	Siracha	Mundra	124	1-86-16
61.	Siracha	Mundra	125/2	1-60-86
62.	Siracha	Mundra	126	2-22-58
63.	Siracha	Mundra	129	5-62-52
64.	Siracha	Mundra	135	2-60-01
65.	Siracha	Mundra	137	1-63-90
66.	Siracha	Mundra	138/1	3-65-23
67.	Siracha	Mundra	140	4-24-92
68.	Siracha	Mundra	141	2-24-60
69.	Siracha	Mundra	142	2-68-11
70.	Siracha	Mundra	143	4-14-81
71.	Siracha	Mundra	144/1	3-83-44
72.	Siracha	Mundra	144/2	1-39-62
73.	Siracha	Mundra	147	2-92-39

74.	Siracha	Mundra	Unsurveyed Land	64-72-85
75.	Siracha	Mundra	295/P6/P3	73-35-18
76.	Tunda	Mundra	180/P	77-52-50
77.	Tunda	Mundra	Unsurveyed Land	506-94-82
78.	Mundra	Mundra	141 Paiki	607-05-00
79.	Mundra	Mundra	141 Paiki	84-17-55
80.	Mundra	Mundra	GMB/GAPL Land (Old Bharat Salt Land)	382-95-00
81.	Tunda	Mundra	180 Paiki	231-60-98
82.	Siracha	Mundra	295/1 Paiki	62-27-12
83.	Baroi	Mundra	238 P	20-23-50
84.	Baroi	Mundra	207 P	21-70-16
85.	Govarsama	Mundra	52 P	189-25-95
86.	Govarsama	Mundra	53 P	27-01-51
	Total of A		6456.3349 Ha	
B (FTWZ)				
87.	Dhrub	-	169/36	168.41
	Total of B			168.41 ha

C (New Multi Product)			
88.	Mundra Forest	Unsurveyed Land	1228.00.00
89.	Mundra Forest	Unsurveyed Land	227.00.00
90.	Mundra Forest	Unsurveyed Land	385.00.00
	Siracha	Unsurveyed Land	1.59.37
	Navinal	Unsurveyed Land	6.99.95
91.	Zarpara	Unsurveyed Land	2.86.92
	Zarpara	689/P92/P2	5.07.11
Total of C			1856.53.35
Total area of (A+B+C)			8481.2784

[F. No. F.1/12/2016-SEZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.